



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 18] नई दिल्ली, अप्रैल 29—मई 5, 2018, शनिवार/वैशाख 9—वैशाख 15, 1940
No. 18] NEW DELHI, APRIL 29—MAY 5, 2018, SATURDAY/VAISAKHA 9—VAISAKHA 15, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 136.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (प्रधान लिपिक) भर्ती नियमावली, 1978, जहां तक वे सहायक के पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में उक्त पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (सहायक) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) वे विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह किया हो, जिसका पति / पत्नी हो, अथवा

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की सं.	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक	12* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 6 (35400-112400 रु.)	चयन पद	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नतियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वेतन मैट्रिक्स में स्तर जिसमें पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	पदोन्नति द्वारा।	वेतन मैट्रिक्स स्तर 4 में उप कार्यालय कैडर के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 10 वर्ष की नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा यथाविहित 2-4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां

				उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता पूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--	--	--	---

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
ग्रुप 'ख' प्रोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय —अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, मुख्यालय, फरीदाबाद —सदस्य 3. अवर सचिव (विपणन प्रभाग) कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली। —सदस्य ग्रुप 'ख' पुष्टीकरण हेतु विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित होंगे : 1. निदेशक (प्रशासन) विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, मुख्यालय, फरीदाबाद —अध्यक्ष 2. अवर सचिव (विपणन प्रभाग), कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली —सदस्य 3. अवर सचिव, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय मुख्यालय; फरीदाबाद —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 12018/6/2011-एम-1]

मीना के. करकेटा, अवर सचिव (एम-1)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

New Delhi, the 23rd April, 2018

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Marketing and Inspection (Head Clerks) Recruitment Rules, 1978, in so far as they relate to the post of Assistant, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President

hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the said post in the Directorate of Marketing and Inspection under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, namely :-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Directorate of Marketing and Inspection (Assistant) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Officials Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of the said post, its classifications and the level in the pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification.**—The method of recruitment, age limits, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of person.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant	12* (2018) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group B Non-Gazetted, Ministerial.	Level 6 (Rs. 35400 - 112400).	Selection post	Not Applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, level in the pay matrix from which promotion or deputation / absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not Applicable	Not Applicable	Two years	By Promotion	Upper division clerk of sub-office cadre in level -4 of the pay matrix with 10 years' regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks training as prescribed by the Department.

				<p>Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>
--	--	--	--	---

If a departmental promotions committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for promotion consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Joint Agriculture Marketing Adviser, Directorate of Marketing and Inspection —Chairman 2. Director (Administration), Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, Faridabad —Member 3. Under Secretary (Marketing Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, New Delhi —Member <p>Group 'B' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director (Administration), Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, Faridabad —Chairman 2. Under Secretary (Marketing Division), Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, New Delhi —Member 3. Under Secretary, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, Faridabad —Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.</p>

[F. No. 12018/6/2011-M.I]

MEENA K. KERKETTA, Under Secy. (M.I)